

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2015/माघ 17, 1936

No. 301]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2015/MAGHA 17, 1936

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

का.आ. 390(अ).—राष्ट्रीय महिला कोष के नियम और विनियमन के नियम 9 के प्रावधान के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित को राष्ट्रीय महिला कोष के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

(i) प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिक्किम

(ii) प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, गुजरात

2. उक्त सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

[फा. सं. 19-8/2014-आरएमके]

आई. एस. चहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2015

S.O. 390(E).—In pursuance of the provisions of Rule 9 of the Rules and the Regulations of the Rashtriya Mahila Kosh, Government of India hereby nominate followings as Members of Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh.

- (i) Principal Secretary, Department of Women & Child Development, Sikkim.
- (ii) Principal Secretary, Department of Women & Child Development, Gujarat.

2. The said members shall hold office for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 19-8/2014-RMK]

I. S. CHAHAL, Jt. Secy.